

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई 2016—श्रावण 1, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्रमांक-बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है। जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिए संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला श्योपुर, हरदा, बैतूल, छतरपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, उमरिया, मंदसौर, खरगोन, राजगढ़ एवं सागर के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017									
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
श्यापुर	श्यापुर	मानपुर-1											
			1	खिरखिरी									बाजरा
			00002	ढोढर									बाजरा
			3	हांसलपुर	धानसिंचित								बाजरा
			00004	बगदिया	धानसिंचित			सोयाबीन					बाजरा
			00005	धीसेठेली	धानसिंचित			सोयाबीन					-
			6	सेमल्दा									बाजरा
			7	लाडपुरा									बाजरा
			8	काशीपुर	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00009	मानपुर				सोयाबीन					
			00010	जैनी	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00011	सेवापुर.	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00012	जवासा				सोयाबीन					
			00013	तलावदा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00014	दांतरदांकलां	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00016	जावदेश्वर	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00017	बहरावदा				सोयाबीन					
			00018	मेवाडा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00019	चकवमूल्या	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00020	शंकरपुर	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00021	ेगुफूनावदा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00022	ददनी	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00023	बगडुआ	धानसिंचित			सोयाबीन					
श्यापुर	श्यापुर	श्यापुर-2											
			00030	सोईकलां	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00031	ज्वालापुर	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00032	नन्दापुर	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00033	बधांबुजुर्ग	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00035	बगवाज									
			36	श्यापुर	धानसिंचित								
			00037	कलारना	धानसिंचित								
			00038	रायपुरा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00039	नागदा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00040	नगदी	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00054	तुलसेफ	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00055	रामगांवडी				सोयाबीन					
			00056	कुंडहवेली				सोयाबीन					
			00057	कनापुर				सोयाबीन					
			00060	मिठेपुरा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00061	जैदा				सोयाबीन					
			00062	सेमल्दा हवेली	धानसिंचित								
			00063	अजापुरा	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00064	हलगांवडाबुजुर्ग	धानसिंचित			सोयाबीन					
			00065	जानपुरा	धानसिंचित								
			00066	मयापुर	धानसिंचित								
			00067	फतेहपुर	धानसिंचित								
श्यापुर	श्यापुर	पैमसर-3											
			00015	लहचौडा				सोयाबीन					

			00024	बनवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	बडौदाराम	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	दत्तारनाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	माखनाखेडली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	सोठवा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	नागरगावडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	तिल्लीपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	गोहेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	कवरसली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	आसीदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	प्रेमसर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	अडवाड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	पानडी	धानसिंचित	-		-	-	-
			00059	ढोंटी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	जलालपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	आमल्दा		-		-	-	-
			00050	ननावद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	दुबडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	छोटाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	बिजरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	पट्टीपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	बडौदा									
		बडौदा-1								
			00021	बावडीचापा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	सलमान्या	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	सिरसौद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	बडौदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	इन्द्रपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	प्रेमपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	ललितपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	उदयौतपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	राधापुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	कुडायथा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	मकडावदाकला		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	बोरदादेह	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	भिलवाडिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	महाराजपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	रतोदन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	बागल्दा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	हलगावडाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	नयानावतेखण्ड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	सुबकरा		-	सोयाबीन	-	-	-
श्यापुर	बडौदा	पाण्डोला-2								
			00001	बाजरली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	पनवाड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	बहडावद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	कुहजापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बांसोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	अलापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	उतनवाड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	हिरनीखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	नारायणपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	लुहाड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	गलमान्या	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	पाण्डोली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	पाण्डोला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	लुड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	फिलोजपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

			00016	तलावडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	ढोढपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	नयागावतेखण्ड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	राडेप	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	मेखडाहेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
शयोपुर										
	कराहल									
		कराहल-1								
			00021	सिलपुरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	पतवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	लहरोनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	मोरावन		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			25	वांसेड		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00026	सैसईपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	मेहरवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	निमानिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	खिरखिरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	बाढ		-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	रानीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	कराहल		-	सोयाबीन	-	-	मक्का
			00033	पनवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
शयोपुर	कराहल	गोरस 2								
			1	हीरापुर		-		-	-	
			00005	गढला		-		-	-	मक्का
			00006	चितारा		-		-	-	मक्का
			00007	मदनपुर		-		-	-	-
			00008	बरगवा		-	सोयाबीन	-	-	मक्का
			00009	जाखदा		-		-	-	-
			00010	गोठरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			14	कैलोर		-		-	-	
			00015	बंधाली	धानसिंचित	-		-	-	-
शयोपुर	कराहल	पेहला								
			00016	आबदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	सरजूपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	मालीपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	पहेला	धानसिंचित	-		-	-	-
			00035	बर्धाखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	बूखरी	धानसिंचित	-		-	-	-
			00037	सुसवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	झिरन्या	धानसिंचित	-		-	-	-
			00039	तुहाडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	करीयादेह		-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	चकरामपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
शयोपुर	वीरपुर	वीरपुर-1								
			00012	रिझेटा		-		-	-	बाजरा
			00013	बरोली		-		-	-	बाजरा
			00015	घौरीबावडी		-		-	-	बाजरा
			00016	जमुदी		-		-	-	बाजरा
			00017	नदीगांव		-		-	-	बाजरा
			00018	धूस		-		-	-	बाजरा
			00019	गोहर		-		-	-	बाजरा
			00020	जिमरछा		-		-	-	बाजरा
			00021	नितनवास		-		-	-	बाजरा
			00022	पांचो		-		-	-	बाजरा
			00023	स्यारदा		-		-	-	बाजरा
			00024	बडागांव		-		-	-	बाजरा
			52	वीरपुर		-		-	-	बाजरा

			00026	जाखेर						
			00027	श्यामपुर						बाजरा
	वीरपुर									
		रघुनाथपुर								
			00001	दातेटी						बाजरा
			00002	बलावनी		सोयाबीन				बाजरा
			3	टरीखुर्द						बाजरा
			4	धनायचा						बाजरा
			00005	टरीकला						बाजरा
			00006	किन्नपुरा						बाजरा
			00007	सुठारा						बाजरा
			8	अरौदरी						बाजरा
			9	सुमरेरा						बाजरा
			00010	हिरापुरा						बाजरा
			11	नीमच						बाजरा
			00014	रघुनाथपुर		सोयाबीन				बाजरा
			00028	मीरेका						बाजरा
			00029	पुरा						बाजरा
			00030	ओछा						बाजरा
श्यामपुर	विजयपुर	विजयपुर 1								
			12	आरोदा						बाजरा
			00017	गढी						बाजरा
			00019	मढा						बाजरा
			00018	ऊपचा						बाजरा
			00016	हल्लपुर						बाजरा
			00020	खितरपाल						बाजरा
			00021	लाडपुरा						बाजरा
			00022	मेदावली						बाजरा
			00023	विजयपुर						बाजरा
			00024	सुनवई						बाजरा
			00025	बांगरोद						बाजरा
			00026	रनावद						बाजरा
			00027	गोहरा						बाजरा
			00028	बरदुला						बाजरा
			00029	दौद						बाजरा
			00031	मेवरा			तुअर			बाजरा
			00032	काठोद						बाजरा
			00033	पचनया						बाजरा
			00034	गोहठा			तुअर			बाजरा
			00035	गांवडी						बाजरा
			00036	गोबर						बाजरा
			00037	दाउदपुर						बाजरा
			00038	गोपालपुर						बाजरा
श्यामपुर	विजयपुर									
		अगरा-2								
			1	किशनपुरा						
			00002	अरौद						बाजरा
			00003	चेटीखेडा						
			00004	अगरा						बाजरा
			00005	उमरीकला						बाजरा
			6	कदवई						
			7	मगरदेह						
			8	बेचाई						
			00009	पिपरवास						बाजरा
			00010	धामनी						बाजरा
			00012	बैनीपुरा						बाजरा
			00014	पावेतीबडादा						बाजरा
			00015	इकलोद						
			49	देहरी						
			50	डोडरीखुर्द						
			51	डोडरीकला						

श्यांपूर	विजयपुर	गसवानी-3	00011	बडादाकला	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00039	सिमरई	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00040	सारंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00041	घिमलवानी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00042	खुरजान	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	बुढोस	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	सहसराम	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	फरारा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	गसवानी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00047	किजरी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	नहरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम						
हरदा	खिरकिया	खिरकिया	00001	काल्याखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	बडनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	खमलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	बारगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बम्हनगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	धनवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	नगावामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	सारंगपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	पाहनपाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	चौकडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	कुडावा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	मादला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	बारगी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	सक्तापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	पीपल्याभारत	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	महालकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	छीपाबड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	खिरकिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		चारुवा	00019	पोखरनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	कालधड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	पडवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	चारुवाखास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	सारसूद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	जटपुरामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	टेमलावाडी रैयत	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	डेउगावमाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	कानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	जयमलपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	प्रतापपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	जूनापानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	मक्तापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	सांगवामाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	छुरीखाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	मोरगढी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	दिमरनी	करताना	00001	लछेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	छीपानेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	कुही	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	गौदागांवखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	गाडामोडकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	नयागांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	गोटडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	करताना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	तजपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	भवरास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	गुल्लास	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00012	रूदलाय	-	सोयाबीन	-	-
		00013	सन्यासा	-	सोयाबीन	-	-
		00014	गोंदागांवकला	-	सोयाबीन	-	-
		00015	नौसर	-	सोयाबीन	-	-
	टिमरनी						
		00016	बाजनिया	-	सोयाबीन	-	-
		00017	बिच्छापुर	-	सोयाबीन	-	-
		00018	बघवाड	-	सोयाबीन	-	-
		00019	रायबोर	-	सोयाबीन	-	-
		00020	पोखरनी	-	सोयाबीन	-	-
		00021	अहलवाडा	-	सोयाबीन	-	-
		00022	निमाचाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-
		00023	खिडकी	-	सोयाबीन	-	-
		00024	बरकला	-	सोयाबीन	-	-
		00025	चारखेडा	-	सोयाबीन	-	-
		00026	टिमरनी	-	सोयाबीन	-	-
		00027	सामरधा	-	सोयाबीन	-	-
		00028	छिदगांवमेल	-	सोयाबीन	-	-
		00029	पीपत्याकला	-	सोयाबीन	-	-
	रहटगांव						
	रहटगांव						
		00017	खमगांव	-	सोयाबीन	-	-
		00018	नरानपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00019	कासरनीकला	-	सोयाबीन	-	-
		00020	रहटगांव	-	सोयाबीन	-	-
		00021	फुलडी	-	सोयाबीन	-	-
		00022	नजरपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00023	छीरपुरा	-	सोयाबीन	-	-
		00024	झाडबीडा	-	सोयाबीन	-	-
		00025	कपासी	-	सोयाबीन	-	-
		00026	राजाबरासी	-	सोयाबीन	-	-
		00027	टेमरुबहार	-	सोयाबीन	-	-
		00028	केली	-	सोयाबीन	-	-
		00029	रवाग	-	सोयाबीन	-	-
		00030	कचनार	-	सोयाबीन	-	-
	सोडलपुर						
		00001	मनियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-
		00002	सोहागपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00003	सोडलपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00004	सोताडा	-	सोयाबीन	-	-
		00005	धौलपुरकला	-	सोयाबीन	-	-
		00006	उन्द्राकच्छ	-	सोयाबीन	-	-
		00007	भादगांव	-	सोयाबीन	-	-
		00008	टेमागांव	-	सोयाबीन	-	-
		00010	नांदवा	-	सोयाबीन	-	-
		00011	गाडामोडखुर्द	-	सोयाबीन	-	-
		00012	सिरकम्बा	-	सोयाबीन	-	-
		00013	आलमपुर	-	सोयाबीन	-	-
		00014	दूधकच्छकला	-	सोयाबीन	-	-
		00015	पानतलाई	-	सोयाबीन	-	-
		00016	छिदगांवतमोली	-	सोयाबीन	-	-
		00009	डोलरिया	-	सोयाबीन	-	-
	सिराली						
	दीपगांवकला						
		00019	बेडियाकला	-	सोयाबीन	-	-
		00020	दोलगांवकला	-	सोयाबीन	-	-
		00021	पहटकला	-	सोयाबीन	-	-
		00022	बावडिया	-	सोयाबीन	-	-
		00023	दीपगांवकला	-	सोयाबीन	-	-

		00024	कडोलासाधी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सोमगांवकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	नहालीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	भगवानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	जुनापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	हसनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सावलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रामटेकरैयत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कुकडापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	चिकलपाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जामुनियाखुद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सांवरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिराली							
		00001	मरदानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	कालकण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	रहटाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मुहाडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	सिराली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	रामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धनकार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	महेन्द्रगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	आमाखाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	जामूखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	पटालदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मकडाईकिला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गोमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पीपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	खुदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जिनवानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	आमासेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	लोलांगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	हडिया							
	अबागावकला							
		00018	रेलवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	धनगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	छिडगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	नीमगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कायागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	देवतलाव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	भादुरागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बांगरूल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	खेडीनीमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कोलीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	अबागावकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	रिजगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	आदमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	सुरजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नांदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गोगिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	हडिया							
		00001	साल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	नयापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	उर्वी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	करनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सोनतलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पांचातलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	कचबेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बिछोलामाल	-	सोयाबीन	-	-	-

		00010	पचोला					सोयाबीन			
		00011	रततलाई					सोयाबीन			
		00012	सीगोन					सोयाबीन			
		00013	मांगरुल					सोयाबीन			
		00014	बेस्वा					सोयाबीन			
		00015	हीरापुर					सोयाबीन			
		00016	खेड़ा					सोयाबीन			
		00017	अजनासरैयत					सोयाबीन			
		00027	हण्डिया					सोयाबीन			
	हरदा										
	मगरधा										
		00020	कमताडा					सोयाबीन			
		00021	रोलगांव					सोयाबीन			
		00022	बीड़					सोयाबीन			
		00023	केलनपुर					सोयाबीन			
		00024	खामापडवा					सोयाबीन			
		00025	डगांवाशकर					सोयाबीन			
		00026	गहाल					सोयाबीन			
		00027	धुरगाढा					सोयाबीन			
		00028	कनारदा					सोयाबीन			
		00029	बूदडा					सोयाबीन			
		00030	बालागांव					सोयाबीन			
		00031	जिजगांवखुर्द					सोयाबीन			
		00032	नकवाडा					सोयाबीन			
		00033	सिरकम्बा					सोयाबीन			
		00034	मोहनपुर					सोयाबीन			
		00035	मगरधा					सोयाबीन			
		00036	झाडपा					सोयाबीन			
		00037	रैसलपुर					सोयाबीन			
	हरदा										
		00001	भुन्नास					सोयाबीन			
		00002	सोनखेडी					सोयाबीन			
		00003	डगांवानीमा					सोयाबीन			
		00004	अबगांवखुर्द					सोयाबीन			
		00005	पिडगांव					सोयाबीन			
		00006	हरदाखुर्द					सोयाबीन			
		00007	झाडपा					सोयाबीन			
		00008	सामरधा					सोयाबीन			
		00009	बैरागढ					सोयाबीन			
		00011	उडा					सोयाबीन			
		00012	भाटपरैटिया					सोयाबीन			
		00013	रन्हाईकला					सोयाबीन			
		00014	कुकरावद					सोयाबीन			
		00015	रहटाखुर्द					सोयाबीन			
		00016	सुखरास					सोयाबीन			
		00017	कडोलाउबारी					सोयाबीन			
		00018	पलासनेर					सोयाबीन			
		00019	मसनगांव					सोयाबीन			

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची							
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
निम्नलिखित फसल को जोड़ा जाता है											
बैतल	शाहपुर	शाहपुर	00003	डाबरी					मक्का		

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा		
निम्नलिखित फसलों को जोड़ा जाता है													
छत्तरपुर	गौरिहार	सरबई	54	सरबई		धान असिंचित							
			58	खडेहा		धान असिंचित							
			61	महोईकला		धान असिंचित							
			62	महोईखुर्द		धान असिंचित							
			70	बसराही		धान असिंचित							
			घुवारा	घुवारा	1	बछरावनी				सोयाबीन			
					2	बूदौर				सोयाबीन			
					3	घुवारा				सोयाबीन			
					4	स्वारा				सोयाबीन			
					5	कुटौरा				सोयाबीन			
6	बारौ						सोयाबीन						
8	पनया						सोयाबीन						
9	ढडीरा						सोयाबीन						
10	बन्हौरीखुर्द						सोयाबीन						
11	हलावनी						सोयाबीन						
भगवां		12	मवई				सोयाबीन						
		13	रामटौरिया				सोयाबीन						
		14	सौरई				सोयाबीन						
		16	दलीपुर				सोयाबीन						
		17	देवपुर				सोयाबीन						
		19	अमरवा				सोयाबीन						
		23	सिमरिया				सोयाबीन						
		24	विशवा				सोयाबीन						
		25	कुडैला				सोयाबीन						
		29	हरदौलपट्टी				सोयाबीन						
चंदला	बछौन	30	पुरापट्टी				सोयाबीन						
		32	मढ़ीखेरा			धान असिंचित	सोयाबीन						
		33	गोरखपुरा				सोयाबीन						
		34	झिंगरी				सोयाबीन						
		34	राजापुर					तुअर					
		छत्तरपुर	महेबा	22	बनगाय				सोयाबीन				
				ईशानगर	27	गहरवार				सोयाबीन			
					28	पहाड़गांव				सोयाबीन			
					29	ईशानगर				सोयाबीन			
					31	बोडा				सोयाबीन			
32	सीगौन							सोयाबीन					
34	बीहटा							सोयाबीन					
33	कुरा							सोयाबीन					
36	बरदाहा							सोयाबीन					
37	रनगावां							सोयाबीन					
39	खैरो					सोयाबीन							
		40	रमपुरा				सोयाबीन						
		42	खडगाय				सोयाबीन						

		44	इकारा		सोयाबीन
		47	अतरार		सोयाबीन
		49	बूदौर		सोयाबीन
छतरपुर	छतरपुर अ	66	बरकौहा		सोयाबीन
		78	नेगुवां		सोयाबीन
	नौगांव	24	नेगुवां		सोयाबीन
		26	नौगांव		सोयाबीन
		28	गरोही		सोयाबीन
		30	बंछौरा		सोयाबीन
		32	वीरपुरा		सोयाबीन
		33	तिंदनी		सोयाबीन
	लुगासी	46	मडरका		सोयाबीन
	बक्सवाहा	1	कंजरा		सोयाबीन
		2	दरगवां		सोयाबीन
		3	भुजपुरा		सोयाबीन
		4	ढिमरवां		सोयाबीन
		5	बाजना		सोयाबीन
		9	तेईयामार		सोयाबीन
		10	गढोहा		सोयाबीन
		11	मडदेवरा		सोयाबीन
		12	सानौदा		सोयाबीन
		13	बक्सवाहा		सोयाबीन
		14	कुशमाड		सोयाबीन
		16	चूचाईसेमरा		सोयाबीन
		17	गढीसेमरा		सोयाबीन
		18	कैरवास		सोयाबीन
		19	पाली		सोयाबीन
		20	किशुनपुरा		सोयाबीन
		21	जैतपुरा		सोयाबीन
		22	सुनवाहा		सोयाबीन
	बम्हौरी	24	बम्हौरी		सोयाबीन
		25	मुढिया		सोयाबीन
		26	गुंगवारा		सोयाबीन
		28	घोघरा		सोयाबीन
		29	निवार		सोयाबीन
		31	सेडारा		सोयाबीन
		32	महूटा		सोयाबीन
		33	नेनागिर		सोयाबीन
		34	मानकी		सोयाबीन
		35	बेरखेरी		सोयाबीन
		36	मझगवांघाटी		सोयाबीन
		37	देवपुर		सोयाबीन
		39	सुजारा		सोयाबीन
	बड़ामलहरा	1	खरदूती		सोयाबीन
		6	बंधा		सोयाबीन
		7	देवरा		सोयाबीन
		9	डिकौली		सोयाबीन
		10	बौकना		सोयाबीन
		11	डोंगरपुरा		सोयाबीन
		12	मुगवारी		सोयाबीन

		23	पिपराकला		सोयाबीन
		28	महाराजगंज		सोयाबीन
		29	बड़ामलहरा		सोयाबीन
	सडवां	30	राजापुर		सोयाबीन
		31	सेधपा		सोयाबीन
		37	सूरजपुराखुर्द		सोयाबीन
		38	परा		सोयाबीन
बड़ामलहरा	सडवां	39	मैलवारा		सोयाबीन
		41	बमनी		सोयाबीन
		42	परतापपुरा		सोयाबीन
		43	सिंगरामपुरा		सोयाबीन
		47	सूरजपुरा		सोयाबीन
बिजावर	बिजावर	1	गढ़ा		सोयाबीन
		2	गुलगंज		सोयाबीन
		3	बक्स्वाहा		सोयाबीन
		4	गोपालपुरा		सोयाबीन
		5	मउखेरा		सोयाबीन
		7	अनगौर		सोयाबीन
		8	मामीन		सोयाबीन
		9	नयागांव		सोयाबीन
		10	हटवाहा		सोयाबीन
		12	पिपट		सोयाबीन
		13	जसगवांखुर्द		सोयाबीन
		14	भारतपुरा		सोयाबीन
		16	बिलगांव		सोयाबीन
		17	बिजावर		सोयाबीन
		18	गुलाट		सोयाबीन
		20	पाटन		सोयाबीन
		23	बक्सोई		सोयाबीन
		24	महुआझाला		सोयाबीन
		25	पाली		सोयाबीन
		26	लखनगुवां		सोयाबीन
		27	रगौली		सोयाबीन
	देवरा	28	डारगुवां		सोयाबीन
		29	विजयपुरा		सोयाबीन
		31	सटई		सोयाबीन
		32	नंदगांवबट्टन		सोयाबीन
		33	कसार		सोयाबीन
		34	रजपुरा		सोयाबीन
		35	नारायनपुरा		सोयाबीन
		36	अमरपुरा		सोयाबीन
		38	अमरोनिया		सोयाबीन
		39	मझगवांकलां		सोयाबीन
		41	मोतीगढ़		सोयाबीन
		42	देवरा		सोयाबीन
		43	लहर		सोयाबीन
		44	धरमपुरा		सोयाबीन
		45	पतरा		सोयाबीन
		46	ढिलारी		सोयाबीन
		47	बड़गांव		सोयाबीन

		49	लुहरपुरा		सोयाबीन
		51	नगदा		सोयाबीन
		52	मतिपुरा		सोयाबीन
		54	राईपुरा		सोयाबीन
		56	कदवारा		सोयाबीन
		62	जैतपुरा		सोयाबीन
महाराजपुर	गढ़ीमलहरा	10	बेदार		सोयाबीन
		11	उर्दमउ		सोयाबीन
	महाराजपुर	16	महाराजपुर		सोयाबीन
		20	पुरमउ		सोयाबीन
		26	शहपुरा		सोयाबीन
महाराजपुर	महाराजपुर	30	बिकौरा		सोयाबीन
राजनगर	ललपुर	5	मनिया		सोयाबीन
		8	तालगांव		सोयाबीन
	राजनगर	20	पिपट		सोयाबीन
		21	नदया		सोयाबीन
		22	विक्रमपुर		सोयाबीन
		23	जमुनिया		सोयाबीन
		24	पाय		सोयाबीन
		28	पहरापुरवा		सोयाबीन
		31	खजुराहो		सोयाबीन
		32	राजनगर		सोयाबीन
	बसारी	36	परा		सोयाबीन
		37	कोटा		सोयाबीन
		38	तिलौहा		सोयाबीन
		40	बिरौना		सोयाबीन
		41	इमलिया		सोयाबीन
		43	गढ़ा		सोयाबीन
		44	कदौहा		सोयाबीन
		45	बसारी		सोयाबीन
		46	बरेठी		सोयाबीन
		47	कुटिया		सोयाबीन
		50	बांदनी		सोयाबीन
		51	सिलावट		सोयाबीन
राजनगर	बसारी	52	भैरा		सोयाबीन
		53	सलेया		सोयाबीन
		56	झमटुली		सोयाबीन
		57	कटरा		सोयाबीन
		58	औंटापुरया		सोयाबीन
		59	बेडरी		सोयाबीन
		60	गंज		सोयाबीन
		61	खैरी		सोयाबीन

निम्नलिखित फसलों को विलोपित किया जाता है

गौरिहार	जुझारनगर	2	करहरी			तुअर
		3	टिकरी			तुअर
		6	चंदवारा			तुअर
		10	मझपटिया			तुअर
		14	नाहरपुर			तुअर
		15	घटरा			तुअर
	गौरिहार	35	हनुखेड़ा			तुअर
		40	बरुआ			तुअर
		42	मवईघाट			तुअर
घुवारा	घुवारा	7	सेवार			तुअर
		14	सौरई			तुअर
		15	बमनौराकला			तुअर
		17	देवपुर			तुअर
	भगवां	21	भोयरा			तुअर
		22	पनवारी			तुअर
		24	विश्वा			तुअर
		25	कुंडेला			तुअर
		27	सरकना			तुअर
		29	हरदोलपट्टी			तुअर
		30	पुरापट्टी			तुअर
		31	भगवां			तुअर
		32	मढीखेरा			तुअर
		34	झिगरी			तुअर
चंदला	चंदला	1	बैडी			तुअर
		2	गुधौरा	सोयाबीन		तुअर
		3	भगौरा			तुअर
		4	पटना	सोयाबीन		तुअर
		5	बसंतपुर			तुअर
		10	चंदला	सोयाबीन		
		17	धूरापुरवा	सोयाबीन		
		19	हिनाता	सोयाबीन		
		20	बेरगियापुखरी			तुअर
	बछीन	22	बंजारी			तुअर
		27	लबरहा			तुअर
		28	रानीपुर			तुअर
		29	कटिया			तुअर
		31	परसनिया			तुअर
		32	भैरा			तुअर
		33	बिगपुरा			तुअर
		36	देवरी			तुअर
		38	पंचमनगर			तुअर
छतरपुर	छतरपुर अ	54	देरी	सोयाबीन		
		55	पठापुर	सोयाबीन		
		56	सौरा	सोयाबीन		
		58	हमा	सोयाबीन		
		59	कैडी	सोयाबीन		
		71	गठेवरा	सोयाबीन		
		72	मौराहा	सोयाबीन		

		76	दालोन		सोयाबीन	
		77	कदारी		सोयाबीन	
	छतरपुर ब	50	बगौता		सोयाबीन	
		52	ढडारी		सोयाबीन	
	नौगांव	1	कैथोकर		सोयाबीन	
		5	गलान		सोयाबीन	
		8	परैथा		सोयाबीन	
		20	टीला		सोयाबीन	
		27	घरमपुरा		सोयाबीन	
	लुगासी	37	नयागांव		सोयाबीन	
		40	मानपुर		सोयाबीन	
		44	भदसर		सोयाबीन	
	नौगांव	47	दौनी		सोयाबीन	
	बडामलहरा	2	बीरौ			तुअर
		3	सैरीरा			तुअर
		20	सतपारा	धान असिचित		
		25	भोजपुरा			तुअर
	सडवा	44	अधियारा		सोयाबीन	
	बिजावर	30	जखरौनकला			तुअर
		31	सटई	धान असिचित		
		48	शाहगढ़		सोयाबीन	
		57	नैगुवां		सोयाबीन	
	महाराजपुर	14	डिगपुरा		सोयाबीन	
		18	सैला		सोयाबीन	
		21	मनकारी		सोयाबीन	
		22	मटौघाबेसन		सोयाबीन	
		25	मुखरौ		सोयाबीन	
		29	बुडरख		सोयाबीन	
	राजनगर	1	डूमरा		सोयाबीन	
		7	भमुआ		सोयाबीन	
		14	डहरा		सोयाबीन	
		19	गोमाकला		सोयाबीन	
	चंद्रनगर	65	बमीठा		सोयाबीन	
		66	पीरा		सोयाबीन	
		67	टिकरी		सोयाबीन	
		68	बेनीगंज		सोयाबीन	
		69	बमनौरा		सोयाबीन	
		71	पहाड़ीबावन		सोयाबीन	
		72	सपोहा		सोयाबीन	
		75	बराखेरा		सोयाबीन	
		76	नियाताल		सोयाबीन	
		77	शिवराजपुर		सोयाबीन	
		78	चंद्रनगर		सोयाबीन	
		79	राजगढ़		सोयाबीन	
		80	पाटन		सोयाबीन	
		82	पथरगवां		सोयाबीन	
		88	रनगवां		सोयाबीन	
	लौंडी	1	पठा		सोयाबीन	
		4	गिलौहा		सोयाबीन	
		7	अटकौहा		सोयाबीन	
		10	दौनी		सोयाबीन	
		11	चितहरी		सोयाबीन	
		14	ज्यौराहा			तुअर
	लौंडी	20	सिजई			तुअर
		21	मुडेरी			तुअर
		22	देवपुर			तुअर
		23	लौंडी		सोयाबीन	तुअर
		24	हरद्वार			तुअर
		25	परतापपुरा			तुअर
		26	खपटया		सोयाबीन	तुअर
		27	बगमउ		सोयाबीन	तुअर
		28	कटहरा			तुअर

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.क्र. नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची							
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
सिवनी	केवलारी	केवलारी										
			00016	परासपानी			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00017	डोकरराजी			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00018	बिनेकी			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00019	मलारा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00020	खरसारू			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00021	खापा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00022	बन्देली			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00023	अहरवाडा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00024	केवलारीखेडा			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00025	टाली			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00026	खुरसीपार मा0			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00027	माल्दनवाडा			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00028	छौंदा			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00029	पोंगार			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00030	रायखेडा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00031	तिन्दुवा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00032	गुबरिया			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00033	पुतरी			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00034	सुन्हेरा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00035	गुवारी			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00036	खैरराजी			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00037	बिछुवा रै.			धानअसिंचित	-	-		-	-
			00038	सुकतरा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00039	बोधिया			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00040	डोभ			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00041	केवलारी			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00042	अलोनीखापा मा0			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00043	झोला			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00044	बगलई			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00045	जामुनपानी			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00046	अर्जुनझिर			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
	केवलारी	पलारी										
			00001	डुंगरिया			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00002	खापा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00003	गुवारी			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00004	धंसौर			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00005	चिरचिरा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00006	पिपरिया कलां			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00007	मैरा			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00008	खैरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00009	लोपा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00010	मुनगापार			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00011	सरेखा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00012	पांजरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00013	झगरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-
			00014	पाथरफोडी मा0			धानअसिंचित	-	-		मक्का	-
			00015	दुटेरा			धानअसिंचित	सोयाबीन	-		मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची							
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
नरसिंहपुर	करेली	आमगांव	00042	कंधरापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00043	कपूरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00044	करताज	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00045	कोसमखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00046	निवारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00047	अम्हेटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00048	सासबहू	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00049	जोवा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00050	मोहद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00051	बघुवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00053	बम्होरी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00054	आमगांवबड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00055	सिमरियाकलां	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00056	पिपरिया(बरोदिवा)	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00057	नयाखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00058	बासादेही	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00059	गोबरगांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00060	खिरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00061	बारहछोटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00062	ग्वारीकलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00063	रमखिरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00064	हिनांतिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00065	माचामउ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00052	तिसरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			करेली	00019	ग्वारी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00020	धूरपुर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00021	चिनकी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00022	समनापुर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00023	उमरिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00024	देवाकछर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00025	कुम्हड़ी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00026	रामपिपरिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00027	रातीकरारकलां	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00028	खैरी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00029	पिपरिया (लिंगा)	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00030	राकई	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00031	पिपरिया (राकई)	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00032	कोदसा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00033	गोगांवरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00034	जोहरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00036	जनौर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00037	बसेड़ी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00038	खैरीनाका	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00039	कठौतिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00040	करेली	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			00041	भुगवारा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	
			बरमान	00001	अमथनू	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00002	बम्हनी			सोयाबीन	तुअर		
		00004	पलोहा छोटा			सोयाबीन			
		00006	रीछई	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00007	कुम्हरोड़ा			सोयाबीन	तुअर		
		00008	बीतली			सोयाबीन			
		00009	बिचुआ			सोयाबीन	तुअर		
		00010	रम्पुरा			सोयाबीन	तुअर		
		00011	सरसला			सोयाबीन	तुअर		
		00012	केरपानी			सोयाबीन	तुअर		
		00013	गुरसी			सोयाबीन	तुअर		
		00014	हिरनपुर			सोयाबीन	तुअर		
		00015	मिदली			सोयाबीन			
		00018	बीकोर			सोयाबीन	तुअर		
		00003	सुआतला			सोयाबीन	तुअर		
		00005	खमरिया	धानसिंचित			तुअर		
	गाडरवारा								
	करपगाँव								
		00156	टेकापार	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00157	नरसरा	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00158	कल्यानपुर	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00159	पनारी	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00160	मालहनवाड़ा	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00161	खंचारी			सोयाबीन			
		00162	करपगाँव			सोयाबीन	तुअर		
		00163	वटसरा	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00164	खमरिया	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00165	चीकसा	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00166	इमलिया	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00167	शाहपुर			सोयाबीन	तुअर		
		00168	टिकटोली	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00169	इमलिया	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
		00170	धमेटा			सोयाबीन	तुअर		
		00171	भैरोपुर			सोयाबीन	तुअर		
		00172	सिल्हेटी			सोयाबीन	तुअर		
		00173	खड़ई			सोयाबीन	तुअर		
		00174	खैरी	धानसिंचित		सोयाबीन	तुअर		
	गाडरवारा								
		00096	झांझनखेड़ा	धानसिंचित					
		00097	आमगाँव	धानसिंचित					
		00098	कामती	धानसिंचित					
		00108	पलोहा वड़ा	धानसिंचित			तुअर		
		00109	रिछावर				तुअर		
		00111	भटेरा				तुअर		
		00112	खकरिया				तुअर		
		00113	नरवारा				तुअर		
		00114	बिचुआ				तुअर		
		00091	कजरोटा				तुअर		
		00092	वरहटा				तुअर		
		00103	गरधा				तुअर		
		00106	खिरिया				तुअर		
		00110	टिमरावन				तुअर		
	चीयली								
		00065	महगवों कला	धानसिंचित					
		00066	कान्हगाँव	धानसिंचित					
		00067	मगरमुहों	धानसिंचित			तुअर		
		00068	खैरी	धानसिंचित			तुअर		
		00070	छैनाकछार	धानसिंचित			तुअर		
		00071	हीरापुर	धानसिंचित			तुअर		

Dab

		00072	रातीकरार	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00073	तेदूखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	मउ	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00075	सूखाखैरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00076	चीचली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00077	थलवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00078	चारगाँव कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00079	बगलई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00080	आडेगाव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00081	सिंगपुर छोटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00082	चारगाँव खुर्द	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00084	पटकुही	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00086	खला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00088	रायपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00069	गोंगई	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00090	चोरबरहटा		-	-	तुअर	-	-
		00089	कुझरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00083	मोहपानी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00087	चाँदनखेड़ा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
	देवरी								
		00020	ढिगसरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	झुंरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	धनौरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	बनवारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	पिठवानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	दहलवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	देवरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	खैरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	पिपरिया खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बांसखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मडगुला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	बम्होरी कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	सुपारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	खुरसीपार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	नांदनेर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	बनखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	बेरखेड़ी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	खमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	आडेगाँव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	बावईकला								
		00039	पनागर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	सहावन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	मोहपा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	पचामा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	अमाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	वावईकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	वावईखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	अजूनगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	मारगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	छैनाकछार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	वसुरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	वारछी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	पलेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	वैरागढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	देवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	मालहनवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	पुवारिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	ढाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00058	वारहावड़ा	धानसिंचित	-				
		00059	दूरसूरु	धानसिंचित	-				
		00060	पिपरिया	धानसिंचित	-				
		00061	इमलिया	धानसिंचित	-				
		00062	उकासघाट	धानसिंचित	-				
		00063	सीरेगाँव	धानसिंचित	-				
		00064	कठोतिया	धानसिंचित	-				
	बोहानी								
		00115	कोठिया			सोयाबीन	तुअर		
		00116	भूमियाढाना			सोयाबीन	तुअर		
		00117	घघरीलाकला			सोयाबीन	तुअर		
		00118	औरझिर			सोयाबीन	तुअर		
		00119	करहैया			सोयाबीन	तुअर		
		00120	सडूमर			सोयाबीन	तुअर		
		00121	लिलवानी			सोयाबीन	तुअर		
		00122	सूकरी			सोयाबीन	तुअर		
		00123	अट्ठायसा			सोयाबीन	तुअर		
		00124	कोडिया			सोयाबीन	तुअर		
		00125	चिरिया			सोयाबीन	तुअर		
		00126	महगुवा			सोयाबीन	तुअर		
		00127	नयागाँव			सोयाबीन	तुअर		
		00128	तिगुवा			सोयाबीन	तुअर		
		00129	दाडिया			सोयाबीन	तुअर		
		00130	चिरचिरा			सोयाबीन	तुअर		
		00131	बोहानी			सोयाबीन	तुअर		
		00132	मनकवारा			सोयाबीन	तुअर		
		00133	वम्हरी			सोयाबीन	तुअर		
	साईखेड़ा								
		00001	सिरसिरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00002	मुआर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-		
		00003	मेहरागाँव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-		
		00004	निवावर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00005	झिकोली		-	सोयाबीन	तुअर		
		00006	तूमडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00007	खिरेटी		-	सोयाबीन	-		
		00008	पिटरास		-	सोयाबीन	तुअर		
		00009	साईखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00010	बम्हरी खुरद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00011	पीपरानी		-	सोयाबीन	तुअर		
		00012	रमपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00013	टेकापार		-	सोयाबीन	-		
		00014	दुडयापानी		-	सोयाबीन	तुअर		
		00015	सोकलपुर		-	सोयाबीन	तुअर		
		00016	पिपरिया कला		-	सोयाबीन	-		
		00017	उडनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00018	देतपोन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-		
		00019	अजंदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
	सिहोरा								
		00135	अजनसरा		-	सोयाबीन	तुअर		
		00136	गरहा		-	सोयाबीन	-		
		00137	इमझिरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00138	खुलरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00139	सगौरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00140	अंडिया		-	सोयाबीन	-		
		00141	डुगरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर		
		00142	हेमरा		-	-	तुअर		
		00144	लिंगा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर		
		00145	छीतापार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-		

		00146	वीतली		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00147	खुरसूरु		-	सोयाबीन	-	-	-
		00148	गौरास	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00149	मडेसूर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00150	रमखिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00151	बांसखेडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00152	महगुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	गोटेगांव								
	करकवेल								
		00001	सांकल		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	वृधगांव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	बढैयाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	देवरीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मोहास		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	अकोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कंधरापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	ठेमी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कापखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बौछार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	वासनपानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मेख		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	करकवेल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मुश. पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	वम्हनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	आंखीवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	सिमरीवडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	टिकरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	मानेगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	कमती		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पोनिया (डुगरिया)		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	गोहचर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	इमलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	गोटेगांव								
		00024	रेहली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	भैंसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खोबी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	जमुनिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	मुआर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	वेलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	चंदली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	करेलीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	झासीघाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पिपरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	सालीवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कूसीवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	नीनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	गरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मुरदई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	कंजई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सिमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बगलई उजर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कमोद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कुम्हडाखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	गोटेगांवखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बरोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	वेलखेडी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	सिलारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00038	खमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-

		00045	छोटाछिंद. नगरीय		-	सोयाबीन	-	-	-
	बरहटा								
		00071	नगवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	नांदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	पिपरसरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	चांदनखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गुदरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	सूरवारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00078	मगरधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	बेलखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	रीछा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बेदू		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00082	बाबली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00083	बरहटा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00084	दीन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	सिरकोना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सिवनी (बधा)	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00087	सिलवानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00089	खापा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00090	रोहिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00070	कटकही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00091	बुढेना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	गाडरवाराखेडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	श्रीनगर								
		00052	बगासपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00069	उमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	राजाकछर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	देवनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	अतरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सर्रा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	कुकलाह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	मनकवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	दबकिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कोरेगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कुंडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	लाठगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	गौरतला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	श्रीनगर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00067	भामा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00068	नेगुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	तेन्दूखेडा								
	चावरपाठा								
		00023	विन्थारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	सिमरिया कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	करहेया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	छत्तरपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	डोभी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	बरकन्डा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00033	नादिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	गुदरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00042	मंहगुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	नेनवारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00044	चाँवपाठा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	बैधा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00034	गुटोरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	बिजौरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	विल्हरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00038	देवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	लोलरी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	ढिगसरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	काशीखेरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	डोभी								
		00001	महूआखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	दिलवार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00003	सागौनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	रम्पुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00005	पीपरवानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	विलगुर्वी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	खमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00008	इमझिरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00009	तेन्दुखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	उमरपानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	मदनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00012	बँधी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	भौरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	टेकापार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	काचरकोना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	ईश्वरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	गंगई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	रवारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	मनकापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	भामा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	बीकोर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	हीरापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	नरसिंहपुर								
	नरसिंहपुर								
		00001	ढाना	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00003	हीरापुर		-	-	तुअर	-	-
		00005	डोगरगाँव		-	-	तुअर	-	-
		00006	मुर्गाखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	पिठेहरा		-	-	तुअर	-	-
		00008	बँधी		-	-	तुअर	-	-
		00009	गरारू		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	मुराछ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	करहैया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	गुड़वारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	चन्द्रपुरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	बन्होरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	तिंदनी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	नवागाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	धवना		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	नयाखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	सगौनीखुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	धुबघट		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	रानीपिंडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	सुपला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	खापा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	मचवारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	पिपरिया मल्लाह		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	बड़गुर्वी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	बेलखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00031	झिरीखुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	डोगरगाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	पौसी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	भववारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00036	डोकरघाट		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	सूरजगाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00002	बंदरोहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	अमौदा		-	-	तुअर	-	-
		00012	घाट पिपरिया		-	-	तुअर	-	-
		00014	झामर		-	-	तुअर	-	-
		00033	घा पिंडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	नरसिंहपुर								
		00038	खमरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00039	जरजौला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	नरसिंहपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	कंदेली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	देवरीकला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	नकटुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	खमतरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रानीपिंडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00049	सिंहपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00050	लौकीपार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सिमरिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00048	धुबघट		-	सोयाबीन	-	-	-
	बघई								
		00052	भैंसा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पाला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00054	कल्याणपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बारुरेवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00056	झारखुरपा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	खुरपा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	डोंगीढाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मुड़िया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बहोरीपार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00061	सहजपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00062	चौराखेड़ा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00063	चीलाचौन कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00064	चीलाचौन खुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00065	बड़गुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	मृगवानी								
		00069	बकोरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00070	देवनगर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00075	ऊसरी		-	-	तुअर	-	-
		00076	रातोमाटी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00077	महगाँव	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00078	कोदरासकला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00079	खमरिया	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00080	गोरखपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00081	बालौद		-	-	तुअर	-	-
		00082	पिपरिया		-	-	तुअर	-	-
		00083	बिचुआ		-	-	तुअर	-	-
		00084	पांजरा		-	-	तुअर	-	-
		00087	गड़रिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00088	लिधारी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00072	पस्ताना		-	-	तुअर	-	-
		00074	पीपरपानी		-	-	तुअर	-	-
		00085	डुडवारा		-	-	तुअर	-	-
		00086	पाठा		-	-	तुअर	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

प्रोसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
			पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
जीमच	जावद										
	जावद										
			00001	सरोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00002	गुर्जरखेड़ी साकला	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00003	ढाणी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00004	तुम्बा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00005	उन्मैदपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00006	तारापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00007	बावलनई	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00008	मैलानखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00009	केलूखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00010	जावद	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00011	अठाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00012	हनुमंतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00013	खोर	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00014	सरवािनया महाराज मसानी	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00015	नयागांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00016	केशरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00017	दामोदरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00018	सुवाखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00019	बरखेडा कामिलया	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00020	पालराखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
	मोरवन										
			00021	मोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00022	उपरेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00023	सरवािनया महाराज	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00024	आकली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00025	मोरवन	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00026	रूपपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00027	माण्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00028	सुठौली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00029	डिकेन	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00030	भगवानपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00031	िनिलया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00032	जनकपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00033	दडीली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00034	कण्डला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00035	लासुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00036	बसेडीभाटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00037	समेल	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00038	आमलीभाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00039	धामिनया	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			00040	मडावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00041	बराडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00042	अरन्या मामोदव	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00043	बांगरेड	-	-	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
	जीरन										
		जीरन									
			00001	सोिनयाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00002	महडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-

		00003	लखमी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बमोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	करांडिया महाराज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	राबिडया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	हरनावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	चीताखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	अमावली जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	घसुण्डी जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	दलपतपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जीरन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बनोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कोठडी इस्तमुरार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	भाटखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	केलूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बामिनया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पालसोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	तालखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	तालखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चल्दू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	अरिनया बोराणा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कूचडौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	हरवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	फोफिलया	-	सोयाबीन	-	-	-
	नीमच							
	नीमच							
		00001	बामनबडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	दूदरसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बसलवास कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	घसुण्डी बामनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	डुंगलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	धनेर कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जय सिंह पुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	धामिनया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पिपल्याबाग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	जमुिनया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जमुिनया खुद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	नीमच िसटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कनावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	भर भिडया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बरूखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नेवड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सेमली चन्द्रावत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बोरखेडी कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मालखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	गिरदोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कानाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	दारू	-	सोयाबीन	-	-	-
	सावन							
		00024	चम्पी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अडमालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बिसलवास सींगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	रेवली देवली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पिपलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	जावी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	थडौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	झालरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	भादवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जवासा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00035	सावन			सोयाबीन			
		00036	लसुडी तंवर			सोयाबीन			
		00037	सिसरखेडा			सोयाबीन			
		00038	आमलीखेडा			सोयाबीन			
		00041	मुण्डला			सोयाबीन			
		00042	विशल्या			सोयाबीन			
		00043	बोरिदया कला			सोयाबीन			
		00039	छायन			सोयाबीन			
		00040	सेमली मेवाड			सोयाबीन			
		00033	बोरखेडी कला			सोयाबीन			
	मनासा								
	कुकडेश्वर								
		00042	धाकडखेडी			सोयाबीन		मक्का	
		00043	खेडली			सोयाबीन		मक्का	
		00044	पलासिया			सोयाबीन		मक्का	
		00045	कंजाडी			सोयाबीन		मक्का	
		00046	चौकडी			सोयाबीन		मक्का	
		00048	टामोटी			सोयाबीन			
		00049	सुवासरा बुजुर्ग			सोयाबीन			
		00050	आमद			सोयाबीन			
		00051	दाना			सोयाबीन			
		00052	चिकली ब्लाक			सोयाबीन			
		00053	कुंडालिया			सोयाबीन			
		00054	फूलपुरा			सोयाबीन			
		00055	कुकडेश्वर			सोयाबीन			
		00056	ढोढरब्लाक			सोयाबीन			
		00057	साकिरया खेडी			सोयाबीन			
		00058	खडावदा			सोयाबीन			
		00059	मोकडी			सोयाबीन			
		00060	ढंढेरी			सोयाबीन			
		00061	पिपल्यागोटा			सोयाबीन			
		00062	फोफल्या			सोयाबीन			
		00063	सेमली ईस्तमुरार			सोयाबीन			
		00064	हनुमंतिया			सोयाबीन			
		00065	पावटी			सोयाबीन			
		00066	लसुडीआत्री			सोयाबीन			
		00067	नलवा			सोयाबीन			
		00068	भदवास			सोयाबीन			
		00069	आत्री बुजुर्ग			सोयाबीन			
		00070	दैन्यल			सोयाबीन			
		00071	खानखेडी			सोयाबीन			
		00072	कुंडला			सोयाबीन			
		00073	कुण्डवासा			सोयाबीन			
	मनासा								
		00001	मालखेडा			सोयाबीन			
		00002	जमुनिया कला			सोयाबीन			
		00003	बालागंज			सोयाबीन			
		00004	पिपल्यारावजी			सोयाबीन			
		00005	उचेड			सोयाबीन			
		00006	बरिडया जागीर			सोयाबीन			
		00007	बावडा			सोयाबीन			
		00008	अल्हेड			सोयाबीन			
		00009	सांडिया			सोयाबीन			
		00010	जालीनेर			सोयाबीन			
		00011	अरिनया माली			सोयाबीन			
		00012	आलपुरा			सोयाबीन			
		00013	टाकनी			सोयाबीन			
		00014	चूकनी			सोयाबीन			
		00015	शेषपुर			सोयाबीन			

		00016	नलखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00017	लोडिकया			सोयाबीन	-	-	-
		00018	आकली			सोयाबीन	-	-	-
		00019	रायिसंह पुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00020	खजूरी			सोयाबीन	-	-	-
		00021	चपलाना			सोयाबीन	-	-	-
		00022	मोखमपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00023	देवरीखवासा			सोयाबीन	-	-	-
		00024	बडकुआं			सोयाबीन	-	-	-
		00025	मोया			सोयाबीन	-	-	-
		00026	बरथून			सोयाबीन	-	-	-
		00027	महागढ			सोयाबीन	-	-	-
		00028	बनौ			सोयाबीन	-	-	-
		00029	बरखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00030	दुर्गपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00031	बरिडया			सोयाबीन	-	-	-
		00032	कचोली			सोयाबीन	-	-	-
		00033	मनासा			सोयाबीन	-	-	-
		00034	हासपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00035	डांगडी			सोयाबीन	-	-	-
		00036	पिपलत्याहाडी			सोयाबीन	-	-	-
		00037	पिपलोन			सोयाबीन	-	-	-
		00038	भाटखेडी बुजुर्ग			सोयाबीन	-	-	-
		00039	रावतपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00040	पडदा			सोयाबीन	-	-	-
		00041	मालाहेडा			सोयाबीन	-	-	-
	रामपुरा								
		रामपुरा							
		00001	राजपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00002	पालडा			सोयाबीन	-	-	-
		00003	तलाउ			सोयाबीन	-	-	-
		00004	बरलाई			सोयाबीन	-	-	-
		00005	हतुनिया			सोयाबीन	-	-	-
		00006	भगोरी			सोयाबीन	-	-	-
		00007	जन्नाद			सोयाबीन	-	-	-
		00008	दुधलाई			सोयाबीन	-	-	-
		00009	खेतपालिया			सोयाबीन	-	-	-
		00010	चन्द्रपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00011	अमरपुरा ब्लाक			सोयाबीन	-	-	-
		00012	भदाना			सोयाबीन	-	-	-
		00013	डायली			सोयाबीन	-	-	-
		00014	बेसला			सोयाबीन	-	-	-
		00015	खिमलाब्लाक			सोयाबीन	-	-	-
		00017	चैनपुरा ब्लाक			सोयाबीन	-	-	-
		00018	मजीरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00019	बारवाडिया			सोयाबीन	-	-	-
		00021	सोनडी			सोयाबीन	-	-	-
		00022	लसुडिया तंवर			सोयाबीन	-	-	-
		00023	भमेसर			सोयाबीन	-	-	-
		00024	देवरान			सोयाबीन	-	-	-
		00025	चचौर			सोयाबीन	-	-	-
		00026	अरन्या ढाणी			सोयाबीन	-	-	-
		00027	बनडा			सोयाबीन	-	-	-
	सिंगोली								
		झांतला							
		00015	किशनपुरा			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00016	शहनातलाई			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	झांतला			सोयाबीन	-	मक्का	-
		00018	राजपुरा झवर			सोयाबीन	-	मक्का	-

		00019	पलासिया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00020	रेतपुरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00021	कदवासा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00022	महपुरा पुरन		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	डाबडा कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	उमर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	बौरिदया कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	कांकिरया तलाई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	रतनगढ								
		00027	झोराई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00028	जाट		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00029	श्रीपुरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00030	खातीखंडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	दौलतपुरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00032	लुहारिया जाट		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00033	बधावा		-	-	-	मक्का	-
		00034	रतनगढ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	देहपुर		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	लुहारिया चुण्डावत		-	-	-	मक्का	-
		00037	आलोरी		-	-	-	मक्का	-
	सिंगोली								
		00001	धारडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	यडीद		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	बडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	फुसिरया		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	सिंगोली		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00006	पटीयाल		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	धनगांव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	कछाला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	ताल		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	कोज्या		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	परलाई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	बाणदा		-	-	-	मक्का	-
		00014	अथवा बजुर्ग		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	आम्बा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
दमोह		दमोह-1	4	बरोदा				तुअर		
			8	करैयाराख				तुअर		
			16	इमलाई			सोयाबीन			
		दमोह-2	31	दमोहखास		धान असिंचित विलोपित की जाती है	सोयाबीन			
		हिण्डोरिया	37	गुंजी			सोयाबीन			
			39	आमखेड़ा			सोयाबीन			
			45	छापरीठाकुर		धान असिंचित				
			47	हिण्डोरिया		धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर		
दमोह	दमोह	बांदकपुर	48	घाटपिपरिया			सोयाबीन			
			49	मुहलीजुझार		धान असिंचित				
			50	पिपरिया टिकरी		धान असिंचित	सोयाबीन विलोपित की जाती है			
			52	बम्होरी			सोयाबीन विलोपित की जाती है			
			54	केबलारी		धान असिंचित				
			56	मुंडारी		धान असिंचित				
			57	हलगंज				तुअर विलोपित की जाती है		
			59	बलारपुर				तुअर विलोपित की जाती है		
			60	खड़ेरा		धान असिंचित	सोयाबीन			
		अमाना	62	दतला		धान असिंचित विलोपित की जाती है	सोयाबीन			
			63	कन्हैयाघाटपटी			सोयाबीन			
			64	सेमरामड़िया			सोयाबीन			
			65	हरदुआ मुडर			सोयाबीन			
			71	मारुताल		धान असिंचित				
		इमलिया	86	हिनोतीरामगढ़			सोयाबीन			
			88	खामखेड़ा कला		धान असिंचित विलोपित की जाती है	सोयाबीन			
			89	रामगढ़			सोयाबीन			
		मडियादो	1	रजपुरा			सोयाबीन			
			2	दमोतीपुरा			सोयाबीन			
			3	नारायणपुरा			सोयाबीन			
			5	अमझिर			सोयाबीन			
			7	घोघरा			सोयाबीन			
			9	डोली			सोयाबीन			
			12	काईखेड़ा			सोयाबीन			

			13	शिवपुर			सोयाबीन		
			15	मलवारा			सोयाबीन		
			16	कनकपुरा			सोयाबीन		
			17	पाली			सोयाबीन		
			19	निवास			सोयाबीन		
			18	पाठा			सोयाबीन		
दमोह	हटा	हिनोता	22	हरदुआ उमराव				तुअर	
			26	मुराछ			सोयाबीन		
			36	सकौर			सोयाबीन		
			37	हिनोताकला			सोयाबीन		
			38	कचनारी			सोयाबीन		
			39	गरेह			सोयाबीन		
			40	गैसाबाद			सोयाबीन		
			42	तेवरईया			सोयाबीन		
			43	देवराजामसा			सोयाबीन		
			45	पिपरिया किरऊ			सोयाबीन		
		हटा	32	हटाखास			सोयाबीन विलोपित की जाती है		
			35	निमरमुंडा			सोयाबीन		
		सदगुंवा	46	सेमराबुजुर्ग			सोयाबीन		
दमोह	पथरिया	नरसिंहगढ़	42	पिपरोधा छक्का			सोयाबीन		
		लुहारी	1	भटिया			सोयाबीन		
			2	कुटरी			सोयाबीन		
			3	रोड़ा			सोयाबीन		
			6	रुसल्ली			सोयाबीन		
			7	कुआखेड़ाबाजी			सोयाबीन		
			12	इटवाहीरालाल			सोयाबीन		
			13	कनजरा			सोयाबीन		
			14	बिजौरा पाठक			सोयाबीन		
			17	रेवड़ा			सोयाबीन		
		देवडोंगरा	33	देवडोंगरा			सोयाबीन		
			35	निमरमुंडा			सोयाबीन		
			36	भरतला			सोयाबीन		
			37	नागमणी			सोयाबीन		
			38	सतरिया		धान असंचित	सोयाबीन		
			39	दतिया		धान असंचित			
			20	बरखेड़ा			सोयाबीन		
दमोह	पटेरा	पटेरा	21	छेवला			सोयाबीन		
			22	महुआखेड़ा			सोयाबीन	तुअर विलोपित की जाती है	
			23	बिला खुर्द			सोयाबीन	तुअर विलोपित की जाती है	
			24	पडरी सहजपुर			सोयाबीन		
			25	कुँवरपुर			सोयाबीन		
			26	कुण्डलपुर			सोयाबीन		

			27	रमगढ़ा		धान असिंचित	सोयाबीन		
			29	पटेशखास			सोयाबीन		
			30	वमनपुरा		धान असिंचित विलोपित की जाती है			
			31	महूना			सोयाबीन		
			40	इमलिया		धान असिंचित	सोयाबीन		
			41	बिलगुवा			सोयाबीन		
			42	बरट			सोयाबीन		
			48	मुआरी			सोयाबीन		
			49	नयागांव			सोयाबीन		
			50	कोटा			सोयाबीन		
		कुम्हारी	44	जमुनिया				तुअर विलोपित की जाती है	
			45	बमनी			सोयाबीन		
			46	बेलखड़ी				तुअर विलोपित की जाती है	
			47	हिनाती				तुअर विलोपित की जाती है	
			51	कुम्हारी				तुअर विलोपित की जाती है	
			57	खमरिया				तुअर विलोपित की जाती है	
			61	सागौनी				तुअर विलोपित की जाती है	
		नोहटा	17	कुलुवा			सोयाबीन		
			19	घोघरी		धान असिंचित विलोपित की जाती है			
			20	नोहटा			सोयाबीन		
			23	मुडारी			सोयाबीन		
		सिमरी जालमसिंग	35	माला	धान सिंचित				
			37	महुआखेड़ा	धान सिंचित				
			38	चौपरा	धान सिंचित				
दमोह	जबेरा	जबेरा	43	भाट खमिरया		धान असिंचित			
			44	बंशीपुर			सोयाबीन		
			46	कोरता		धान असिंचित			
			47	खैरी सिगौरगढ़		धान असिंचित			
			49	करनपुरा		धान असिंचित			
			51	मुडेरी		धान असिंचित			
			52	दुगानी		धान असिंचित			
			53	विजयसागर			सोयाबीन		
		सिंग्रामपुरा	65	रामसलैया		धान असिंचित			
			64	गुवराकला		धान असिंचित			
			63	कुसमी मानगढ़		धान असिंचित			
			66	कोड़ा कला		धान असिंचित	सोयाबीन		
			67	सहसना		धान असिंचित	सोयाबीन		
			68	सिंग्रामपुर		धान असिंचित			

			69	कलूमर		धान असिंचित			
दमोह	तैंदूखेड़ा	तेजगढ़	1	दिनारी		धान असिंचित			
			2	कुलुआ		धान असिंचित			
			5	करोंदी सिंगौर गढ़		धान असिंचित			
			12	मझगुवां		धान असिंचित			
		झलौन	18	मोहड		धान असिंचित			
			48	मगदूपुरा			सोयाबीन		
			51	ससना कला		धान असिंचित			
		मगरौन	19	हिनोती			सोयाबीन		
		बटियागढ़	33	सहजादपुरा				तुअर विलोपित की जाती है	
दमोह	बटियागढ़		34	बटियागढ़				तुअर विलोपित की जाती है	
		खडेरी	47	सकतपुर			सोयाबीन		
			50	सैझारा				तुअर विलोपित की जाती है	
			51	कैथोरा				तुअर विलोपित की जाती है	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार						
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
होशंगाबाद											
		बनखेड़ी									
			52	पीपरपानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
उमरिया	चंदिया	चंदिया											
			00004	बांका		धानअसिंचित	-	-	-	-	-		
			00009	चंदिया		धानसिंचित	-	-	-	-	-		
			00010	पथरहटा		धानसिंचित	-	-	-	-	-		
			11	सेमडारी									
			00013	जटवार		धानसिंचित	-	-	-	-	-		
			00014	मझगवां-18		धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00016	मडवा		धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-		
			00017	धतूरा		धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-		
			00019	खाले कठई		धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-		
			00020	नरवार न.25			धानअसिंचित	-	-	-	-		
			00021	घोघरी		धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-		
			00022	कौंडिया		धानसिंचित	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-		
			00024	गुडा			धानअसिंचित	-	-	-	-		
			नौराजाबाद	नौराजाबाद		1	पठारी			सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
						00003	बडागांव		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
						4	निपनिया			सोयाबीन	-	-	-
						5	देवगंवाखुर्द						
						00008	छांदाकला		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
						11	पिनौरा			सोयाबीन	तुअर		
						00013	देवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
						00015	झगडौवा		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
						00016	कोहका-82		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-
						00017	गहिरा टोला		धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
18	चरगवां						सोयाबीन	तुअर	मक्का	-			
00021	सिंहपुर					धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	-			
24	दुलहरी												
00025	नरवरी												
00026	कल्दा		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-						
पाली	अमिलिहा		00025	भौतरा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-			
			00027	बकेली		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-			
			00044	नरवार		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-			
			00045	शाहपुर ज. नं. 966		धानअसिंचित	-	-	-	-			
			पाली			00004	पाली		धानअसिंचित	-	-	-	
						2	सलेया						
12	मुदरिया												
13	बरहाई												
14	मलहदू												
15	गोयरा												
18	घुनघुनी												

बाधवगढ	20	ममान						
उमरिया	10	उमरियाखास						
	00011	किरनताल कला ज.न. 96		धानअसिचित	-	-	-	-
	00012	महरोई ज.न. 592		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	00016	माली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00017	धवईझर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00018	पठारीकला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00019	कोहका 47		धानअसिचित	-	-	-	-
करकेली								
	00023	मृण्ड		-	सोयाबीन	-	-	-
	00027	सिलोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
	00028	मझगवा		-	सोयाबीन	-	-	-
	00029	धनवार		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	00031	महुरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
	00032	कोडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	00033	गोपालपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	00034	जरहा		-	सोयाबीन	-	-	-
	00035	नरवार न.29		-	सोयाबीन	-	-	-
	00036	धुलधुली		-	सोयाबीन	-	-	-
	00037	कचनपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
	00038	नयागांव		-	सोयाबीन	-	-	-
	00039	जुडवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
	00040	अनपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
	00041	कछारी		-	सोयाबीन	-	-	-
	00042	बोदली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00043	धमनी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00044	बेलसरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00045	रहठा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
मानपुर								
इन्दवार								
	00001	मझोखर		-	-	तुअर	मक्का	-
	3	पोडिया						
	4	धनवाही						
	00007	भरेवा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00012	दमोय		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	16	झाल						
	00017	चितरांव		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
चिल्हारी								
	00024	पडवार		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00025	बेल्दी		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
ताला								
	00035	सुखदास		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00039	परासी		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
	00041	ददरीडी		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00050	पतौर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00047	ताला		-	-	-	मक्का	-
मानपुर								
	00051	पटेहरा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00052	सिगुडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	00055	नीगवा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
	00061	गोवदे		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00062	मानपुर		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00063	कछावा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
	00064	कठार		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00065	रक्शा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
	00066	वडार		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
	00067	भमरहा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
रायपुर								
	00077	पिपरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
	00078	सेमरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
निम्नलिखित पटवारी हल्कों को विलोपित किया जाता है।										
मन्दसौर	दलोदा									
		वृत्त 1 आकोदडा	14	दलोदा चौपाटी						
	भानपुरा									
		वृत्त भानपुरा	1	गांधीसागर						
			3	धावदबुजुर्ग						

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
खरगोन	झिरन्या									
	झिरन्या		9	जामली			सोयाबीन			
			10	मोरवा			सोयाबीन		मक्का	
	महेश्वर									
	महेश्वर		00036	गुलावड			सोयाबीन		मक्का	
	सेगांव									
	सेगांव		14	खमखेड़ा						
			20	बनिहार						
	बड़वाह	बड़वाह	26	थरवर						
			34	खमकीवारूल						
			35	राजना						
			41	लौदी बी						
			49	रुपाबेड़ी						
			51	कटघरा						
			54	किठूद						
	भीकनगांव	भीकनगांव	17	अंजनगांव			सोयाबीन			

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
निम्नलिखित फसलों को जोड़ा जाता है।										
राजगढ़										
	खिलचीपूर									
		भोजपुर								
			00004	सेमलीकली	-	-	-	-	मक्का	-
			00005	भोजपुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00024	पपडेल	-	-	-	-	मक्का	-
	खिलचीपूर									
		खिलचीपूर								
			00036	माँडाखेड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00037	बघेला	-	-	-	-	मक्का	-
			00038	चौदपुरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00062	अभयपुर	-	-	-	-	मक्का	-
		छापीहेड़ा								
			00066	कलीखेड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00067	जैतपुराखुर्द	-	-	-	-	मक्का	-
			00069	दूदाहेड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00070	हालाहेड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00073	कछोटिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00074	देवाखेड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00076	घुंवाखेड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00077	चितावल्या	-	-	-	-	मक्का	-
			00080	नाटाराम	-	-	-	-	मक्का	-
			00081	भाटखेड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00082	जटामढी	-	-	-	-	मक्का	-
			00084	छापीहेड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00085	खजूरीगोकुल	-	-	-	-	मक्का	-
			00086	काकरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00087	दरियापुर	-	-	-	-	मक्का	-
			00088	देवलीसांगा	-	-	-	-	मक्का	-
			00092	गाढ़ाहेट	-	-	-	-	मक्का	-
			00094	चमारी	-	-	-	-	मक्का	-
			00095	गुंगाहेड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00096	बामनगाँव	-	-	-	-	मक्का	-
			00097	सोनखेड़ाकली	-	-	-	-	मक्का	-
	जीरापुर									
		जीरापुर								
			00056	परोलिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00060	खारपा	-	-	-	-	मक्का	-
			00066	धतरावदा	-	-	-	-	मक्का	-
			00067	बरमनखेड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			69	लक्ष्मणपुरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00070	भण्डावद	-	-	-	-	मक्का	-
			00081	बालाहेड़ा	-	-	-	-	मक्का	-
			00082	झाड़मउ	-	-	-	-	मक्का	-
			00083	मोहन	-	-	-	-	मक्का	-
			00085	बाँसखेड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00088	कंडेली	-	-	-	-	मक्का	-
	ब्यावरा									
		ब्यावरा								
			00011	बालचिड़ी	-	-	-	-	मक्का	-
			00012	परसूलिया	-	-	-	-	मक्का	-

20/7

राजगढ़	राजगढ़								
		00035	गोलाखेडा					मक्का	
		00036	पाडलीखाती					मक्का	
		00037	कांसी					मक्का	
		00040	कलीखेडा					मक्का	
		00041	पीपलबे पुरोहित					मक्का	
		00042	बानपुर					मक्का	
		00048	हताईखेडा					मक्का	
		00053	गोरवपुरा					मक्का	
		00057	पाटनकला					मक्का	
		00058	रामगढ़					मक्का	
		00061	मांडाखेडा					मक्का	
	खुजनेर	66	कोलूखेडा					मक्का	
		67	कालीतलाई					मक्का	
		79	लिम्बोदा					मक्का	
		84	खुजनेर					मक्का	
		103	कचनारिया					मक्का	

निम्नलिखित फसलों को विलोपित किया जाता है ।

खिलचीपुर	खिलचीपुर								
		45	दिलावरी					मक्का	
		47	अमानपुरा					मक्का	
		51	पीपल्याकला					मक्का	
		53	रूपारेल					मक्का	
		54	जामान्या					मक्का	
		58	बड़बेली					मक्का	
जीरापुर	जीरापुर	74	सादलपुर					मक्का	
ब्यावरा	ब्यावरा	1	पीपलब्यावे					मक्का	
		7	खुरी					मक्का	
		9	पड़ानिया					मक्का	
		15	भाटखेड़ी					मक्का	
		16	दौलतारिया					मक्का	
		17	देवलखेडा					मक्का	
		18	पुनरखेड़ी					मक्का	
		19	भिलवाड़िया					मक्का	
		20	रलायती					मक्का	
		23	खजूरिया					मक्का	
		24	पीपलहेला					मक्का	
		25	भूरा					मक्का	
		26	बगोरी					मक्का	
		28	लोदीपुरा					मक्का	
		30	बहादुरपुरा					मक्का	
		32	खानपुरा					मक्का	
		33	बरखेडा					मक्का	
		34	नरियाबेड़					मक्का	
	सुठालिया	36	आलमपुरा					मक्का	
		37	भाटपुरासोध्या					मक्का	
		38	निवानिया					मक्का	
		39	जेपला					मक्का	
		40	तलावली					मक्का	
		41	बेलास					मक्का	
		42	चाचाखेड़ी					मक्का	

			43	पीपल्याखेड़ा					मक्का
			44	गिन्दौरहाट					मक्का
			46	बिसोनिया					मक्का
			47	टीका					मक्का
			49	नापानेरा					मक्का
			51	नेवली					मक्का
			52	बोसखो					मक्का
			53	कानेड					मक्का
			54	पारसना					मक्का
			55	खनोटा					मक्का
			58	रायपुरिया					मक्का
			60	सुठालिया					मक्का
			61	मोटबड़ली					मक्का
			62	गोरधनपुरा					मक्का
			63	नरा					मक्का
			64	निवारा					मक्का
			65	मउ					मक्का
			67	हासरोद					मक्का
			68	सालरियाखेडी					मक्का
			70	कडियाहाट					मक्का
			71	सेमलापार					मक्का
		भलावर	72	बेरियाखेडी					मक्का
			73	उमरेड					मक्का
			74	गांगाहानी					मक्का
			77	जामी					मक्का
			78	मानकी					मक्का
			79	झरखेड़ा					मक्का
			80	तलावडामहराजा					मक्का
			81	गिन्दोमीना					मक्का
			82	खारकातेजा					मक्का
			85	बोरदा					मक्का
			86	बौरवा					मक्का
			88	वाईहेड़ा					मक्का
			89	तालोडी					मक्का
			90	पगारा					मक्का
			91	लसूडलीमहराजा					मक्का
			92	मुआवलियादांगी					मक्का
			93	अरन्या					मक्का
			94	मलावर					मक्का
			96	आमल्याहाट					मक्का
			97	मोतीपुरा					मक्का
			98	बरखेडी					मक्का
			99	आगर					मक्का
			102	तरेना					मक्का
			103	बगवाज					मक्का
			104	पाहलीगोसाई					मक्का
			105	सीलखेड़ा					मक्का
			107	लखनवास					मक्का
			108	कुण्डीखेड़ा					मक्का
			109	आमडोर					मक्का

			110	भवास						मक्का
			111	किशनगढ़						मक्का
	राजगढ़	कालीपीठ	1	छायन						मक्का
			2	बहादुरपुरा						मक्का
			3	पीपलोदी						मक्का
			4	दहरीनाथ						मक्का
			5	हिनोती						मक्का
			6	भियापुरा						मक्का
			7	बांकपुरा						मक्का
			15	नारायणगटा						मक्का
			25	सुल्तानपुरा						मक्का
			28	हिरनखेड़ा						मक्का
			29	कालीपीठ						मक्का
			30	टांडीकलां						मक्का
			31	धनवासकलां						मक्का
			32	माचलपुर						मक्का
			33	कंवरपुरा						मक्का
		खुजनेर	71	चाटूखेड़ा सोध्या						मक्का
			75	चौसला						मक्का
			91	बांसखेड़ा						मक्का
		राजगढ़	44	राजगढ़					सोयाबीन	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
निम्नलिखित फसलों को जोड़ा जाता है ।										
सागर	खुरई	खुरई	33	जरवास			सोयाबीन			
	रहली	रहली	48	पटनामुहली			सोयाबीन			
	सागर	सागर-1	52	रजौआ			सोयाबीन			
			62	मेनपानी			सोयाबीन	-	-	-
			64	उदयपुरा			सोयाबीन	-	-	-
			65	सागरखास			सोयाबीन	-	-	-
			66	करीला			सोयाबीन	-	-	-
			67	ललईटोरी			सोयाबीन	-	-	-
		सागर-2	70	सेमराबाग			सोयाबीन	-	-	-
			71	रजाखेड़ी			सोयाबीन	-	-	-
			74	सिरौंजा			सोयाबीन	-	-	-
निम्नलिखित फसलों को विलोपित किया जाता है ।										
सागर	देवरी	महाराजपुर	54	झमारा		धान असिंचित		-	-	-
			55	नौरादेही			सोयाबीन	-	-	-
			57	बारहा		धान असिंचित		-	-	-
			70	भरई		धान असिंचित		-	-	-
	रहली	रहली	47	मुहली बुजुर्ग		धान असिंचित		-	-	-
			48	पटना मुहली		धान असिंचित		-	-	-